

01

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 20-12-2020**

आज दिनांक 20/12/2020 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र नई किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 05 परिवारों को बिखरने से बचाया गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 20/12/2020 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र /नई किरण का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 10 पत्रावलीयां विचारार्थ प्रस्तुत हुई तथा 09 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। परामर्श के बाद 05 पत्रावलियों का सफल निस्तारण संभव हुआ। परामर्श के मुख्य परामर्शदाता, श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, श्री विजय कान्त मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा। निस्तारण में श्रीमती पूनम मौर्या, उ.नि. महिला थाना, महिला मुख्य आरक्षी सरोज माला, महिला आरक्षी सविता सिंह, महिला आरक्षी ब्यूटी गिरी, महिला आरक्षी नेहा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

**निस्तारित पत्रावली का विवरण-**

1. पूजा पत्नी राजाराम निवासी बहडिलिया थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।
2. पुष्पा पत्नी रामानन्द निवासी जोलहाभारी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
3. हरिश्चन्द्र पुत्र छोटेलाल निवासी जगरगठिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।
4. आशमा पत्नी रहमत अली निवासी दुबायत थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5- शारदा पत्नी तौलन निवासी बहादुरपुर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

02

**सराहनीय कार्य दिनांक 20-12-2020**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-20-12-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एकट के अंतर्गत 267 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 88 वाहनों का चालान कर ₹ 94,100/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

03

**सराहनीय कार्य दिनांक 20-12-2020**

**मोहाना पुलिस की कार्यवाही में धारा 60 Ex.Act का एक अभियुक्त 10 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी" के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में श्री जय प्रकाश दुबे थानाध्यक्ष थाना मोहाना के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 279/2020 धारा 60 Ex.Act के एक अभियुक्त राहुल चौधरी पुत्र सिलमन चौधरी साकिन बर्डपुर नं0-09 टोला सोनबरसा थाना मोहाना जनपद सि0नगर को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. SO जयप्रकाश दुबे थानाध्यक्ष थाना मोहाना जिला सि0नगर
2. उ0नि0 आनन्द कुमार थाना मोहाना जिला सि0नगर
3. का0 रामायन यादव थाना मोहाना जिला सि0नगर
4. का0 राजेश यादव थाना मोहाना जिला सि0नगर

04

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 20-12-2020**

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स में सदर सर्किल का अर्दली कक्ष कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 20-12-2020 को रिजर्व पुलिस लाइन्स में सदर सर्किल के थानों - सिद्धार्थनगर, महिला थाना, उसका बाजार, मोहाना, लोटन एवं कपिलवस्तु का अर्दली कक्ष कर सदर सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 20-12-2020**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा थाना शोहरतगढ़ में शोहरतगढ़ सर्किल का अर्दली कक्ष/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षकगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 20-12-2020 को थाना शोहरतगढ़ में शोहरतगढ़ सर्किल के थानों शोहरतगढ़, डेबरुआ, चिल्हिया का अर्दली कक्ष/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर शोहरतगढ़ सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षकगण को निम्न आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

1. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण।
2. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)
3. धोखाधड़ी (419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण।
4. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण।
5. माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण।
6. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
7. वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
8. गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
9. टाप-10 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
10. चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी।
11. भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया। उक्त गोष्ठी के दौरान शोहरतगढ़ सर्किल के समस्त प्रभारी निरीक्षकगण एवं शोहरतगढ़ सर्किल के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 20-12-2020****“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 व्यक्ति के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही”**

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री मायाराम वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक गोलहौरा शमशेर बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.12.2020 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 1. राधेश्याम पुत्र रामभरोसे निवासी रमवापुर पाठक थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 जुबेर अली
2. कांस्टेबल सौरभ सिंह